

कशोर न्याय संशोधन वधियक, 2021 से संबंधित मुद्दा

प्रलिस के लयः

कशोर न्याय अधनियम, गैर-संज्जेय अपराध, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनियम, बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

मेन्स के लयः

कशोर न्याय संशोधन वधियक, 2021 से जुड़ी चर्चाएँ, बच्चों के कल्याण के लय कानूनी ढाँचा

चर्चा में क्यों?

कशोर न्याय अधनियम संशोधन, बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions-CCI) में कर्मचारियों या प्रभारी व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार एवं कूरता को गैर-संज्जेय अपराध बनाकर बाल देखभाल संस्थानों में दुर्व्यवहार की रपौरट करने को और अधिक जटलि बना रहा है।

- कशोर न्याय अधनियम, 2015 के वभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने के लयकशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021 पारति कयि गया था।

प्रमुख बडु

कशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021 के प्रावधानः

- गैर-संज्जेय अपराधः
 - बच्चों के खलिफ अपराध जो कशोर न्याय अधनियम, 2015 के अध्याय "बच्चों के खलिफ अन्य अपराध" में वर्णति हैं, जसि अपराध के लयि तीन से सात वर्ष की जेल की सजा हो, वह "गैर-संज्जेय" होगा।
- गोद लेना/एडॉप्शनः
 - संशोधन बच्चों के संरक्षण और गोद लेने के प्रावधान को संरक्षण प्रदान करता है। न्यायालय के समक्ष गोद लेने के कई मामले लंबति हैं तथा न्यायालय की कार्यवाही को तीवर करने के लयि शक्ति ज़िला मजसिद्रेट को हस्तांतरति कर दी गई है।
 - संशोधन में प्रावधान है कि ऐसे गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार ज़िला मजसिद्रेट के पास है।

कशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधनियम, 2015

- संसद ने कशोर अपराध कानून और कशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधनियम, 2000 को बदलने के लयि कशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधनियम, 2015 को पारति कयि था।
- यह अधनियम जघन्य अपराधों में संलपित 16-18 वर्ष की आयु के बीच के कशोरों (जुवेनाइल) के ऊपर बालगिों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।
- इस अधनियम में गोद लेने के लयिमाता-पति की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को शामिल कयि गया है। अधनियम ने हट्टू दत्तक ग्रहण व रखरखाव अधनियम (1956) और वार्ड के संरक्षक अधनियम (1890) को अधिक सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक कानून के साथ बदल दयि।
- अधनियम गोद लेने से संबंधति मामलों के लयि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकिरण (Central Adoption Resource Authority-CARA) को वैधानिक निकाय बनाता है, यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल एवं उन्हें गोद देने के लयि एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- बाल देखभाल संस्थान (CCI):
 - सभी बाल देखभाल संस्थान, चाहे वे राज्य सरकार अथवा स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालति हों, अधनियम के लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर अधनियम के तहत अनविर्य रूप से पंजीकृत होने चाहयि।

- कशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021 से संबद्ध चुनौतियाँ: वशिष्ठ रूप से संशोधन में चुनौती कशोर न्याय अधिनियम की धारा 86 में से एक है, जिसके अनुसार वशिष्ठ कानून के तहत अपराधों को तीन से सात साल के बीच की सज़ा के साथ गैर-संज्ञेय के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- जबकि शक्ति में असंतुलन के कारण पीड़ित स्वयं सीधे उनकी रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं, ऐसे अधिकांश अपराधमाता-पिता या बाल अधिकार निकायों और बाल कल्याण समितियों (CWC) द्वारा पुलिस को रिपोर्ट किये जाते हैं।
 - इन बच्चों के माता-पिता: वे ज़्यादातर दहिड़ी मज़दूर हैं, या तो इस बात से अनजान हैं कि पुलिस को अपराधों की रिपोर्ट कैसे करें या फिर न करें।
 - वे कानूनी प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि इससे उन्हें काम से समय निकालने के लिये मज़बूर होना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप मज़दूरी का नुकसान होगा।
 - बाल कल्याण समितियाँ (CWC): ज़्यादातर मामलों में CWC की पहली प्रवृत्ति पुलिस को मामले को आगे बढ़ाने के बजाय "बात करना और समझौता करना" है।
- वशिष्ठ कानून के तहत कई अन्य गंभीर अपराधों के साथ इन अपराधों को गैर-संज्ञेय बनाना पुलिस को अपराध की रिपोर्ट करना और भी कठिन बना देगा।

संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध:

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही के संचालन के लिये नियम निर्धारित करती है, जिसने किसी भी आपराधिक कानून के तहत अपराध किया है।
- संज्ञेय अपराध:
 - संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी पहली अनुसूची के अनुसार या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत दोषी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और अदालत की अनुमति के बिना जाँच शुरू कर सकता है।
 - संज्ञेय अपराध आमतौर पर जघन्य या गंभीर प्रकृतिके होते हैं जैसे कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, दहेज हत्या आदि।
 - प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) केवल संज्ञेय अपराधों के मामले में दर्ज की जाती है।
- गैर-संज्ञेय अपराध:
 - एक गैर-संज्ञेय अपराध भारतीय दंड संहिता की पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अपराध होता है और प्रकृतिके ज़मानती होता है।
 - गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है और साथ ही जाँच शुरू नहीं कर सकती है।
 - मजिस्ट्रेट के पास एक आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है, जो संबंधित पुलिस स्टेशन को जाँच शुरू करने का आदेश देता है।
 - जालसाजी, धोखाधड़ी, मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव आदि अपराध गैर-संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं।
- संज्ञेय और गैर-संज्ञेय दोनों अपराधों से जुड़े मामले:
 - दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155(4) के अनुसार, जब किसी मामले में दो या दो से अधिक अपराध होते हैं, जिनमें से कम-से-कम एक संज्ञेय प्रकृतिके होता है, और दूसरा गैर-संज्ञेय प्रकृतिके होता है।
 - फरि पूरे मामले को एक संज्ञेय मामले के रूप में नपिटया जाना चाहिये और जाँच अधिकारी के पास संज्ञेय मामले की जाँच के लिये सभी शक्तियाँ एवं अधिकार होंगे।

आँकड़े:

- [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो \(NCRB\)](#) के अनुसार, वर्ष 2017 में इन अपराधों को दर्ज करने की शुरुआत के बाद से वर्ष 2019 तक इसमें 700 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी।
- NCRB ने वर्ष 2017 में भारत भर में CCI प्रभारी द्वारा किये गए अपराधों के 278 मामले दर्ज किये जिनमें 328 बाल पीड़ित शामिल थे। वर्ष 2019 तक ये मामले बढ़कर 1,968 हो गए, जिनमें 2,699 बाल पीड़ित थे।

बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिये अन्य कानूनी ढाँचे:

- [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम \(POCSO\), 2013](#)
- [बाल श्रम \(निषिध और वनियमन\) अधिनियम, 2016](#)
- [बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय \(UNCRC\)](#)
- [राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2005](#)

आगे की राह

- प्रक्रियात्मक कमियों को दूर करने और न्याय की तेज़ी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के साथ-साथ, माता-पिता या स्वतंत्र नागरिक समाज संगठनों के माध्यम से पीड़ितों की रिपोर्टिंग क्षमता को आसान बनाने की आवश्यकता है जो पीड़ित को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चा सामान्य जीवन में लौट आए।
 - बच्चों के लिये एक सुरक्षित दुनिया सुनिश्चित करने के लिये उच्च दोषसिद्धि दर एक लंबा रास्ता तय करेगी।
- बाल संरक्षण नियम वशिष्ठ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, क्योंकि ज़िला मजिस्ट्रेट आमतौर पर इन वशिष्ठ कानूनों से नपिटने के लिये प्रशिक्षित या सुसज्जित नहीं होते हैं।
- बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ज़िला प्रशासन को सभी पाँच अंगों - CWC, JJ बोर्ड, CCI, ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों और वशिष्ठ

कशोर पुलसि इकाइयों के साथ मलिकर काम करना चाहिये ।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/issue-with-the-juvenile-justice-amendment-act-2021>

